



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221]  
No. 221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 1984/आषाढ़ 1, 1906  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 1984/ASADHA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना।

नई दिल्ली, 22 जून, 1984

सं० F.184/84-सीमाशुल्क

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 1984

No.184/84-CUSTOMS

सा० का० नि० 465 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, 'सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 89.04 के अंतर्गत आने वाले पोतों, नावों और जहाजों के लिए अन्य जलयानों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 30 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

G.S.R. 465(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts ships, boats and other vessels for breaking up falling under Heading No. 89.04, of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 30 per cent ad valorem.

[का० सं० एस०-31/84-टी० आर० यू० (सीयू)]

[F.No. S-31/84-TRU (Customs)]

## अधिसूचना

सं० 185/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 468 (अ):—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 36 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 126/84-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, परलुक्त की मद (क) में, “पालिएस्टर चिप” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“और अध्याय 89 के अंतर्गत आने वाले पोतों, नावों और जेकअप के लिए अन्य जलयानों,”।

[फा० सं० एस०-31/84-टी० आर० यू० (सीशु)]

## NOTIFICATION

No. 185/84-CUSTOMS

G.S.R. 466(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 36 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 126/84-Customs, dated the 11th May, 1984, namely:—

In the said notification, in item (a) of the proviso, after the word and figures “Chapter 39”, the following words and figures shall be inserted, namely:—

“and ships, boats and other vessels for breaking up falling within Chapter 89,”.

[F.No. S-31/84-TRU(Cus.)]

## अधिसूचना

सं० 186/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 467 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को ऐसी प्रत्येक अधिसूचना का जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति संशोधन या और संशोधन किया जाएगा।

## सारणी

क्रम सं० अधिसूचना सं० और तारीख

संशोधन

1

2

3

1. 34—सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 1 के सामने, स्तंभ (4) में, “मूल्य का 40 प्रतिशत” शब्दों और अंकों के स्थान पर “मूल्य का 60 प्रतिशत” शब्द और अंक रखे जायेंगे।

2. 197—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1983

उक्त अधिसूचना में:—  
(क) “मूल्य के 100 प्रतिशत” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “मूल्य के 50 प्रतिशत” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 2 का लोप किया जाएगा।

3. 38—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 7, 8 और 9 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

4. 39—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने, स्तंभ (3) में, “मूल्य का 55 प्रतिशत” शब्दों और अंकों के स्थान पर “कुछ नहीं” शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० एस०-31/84-टी० आर० यू० (सीशु)]

सी० बरदाराजन, अवर सचिव

## NOTIFICATION

No. 186/84-CUSTOMS

G.S.R. 467(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in Column(2) of the Table hereto annexed, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in Column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. Notification No. and date		Amendment	1	2	3
1	2	3			
1. 34-Customs, dated the 28th February, 1982.		In the Table annexed to the said notification, against Sl. No. 1 in Column (4), for the figures and words "40 per cent ad valorem" the figures and words "60 per cent ad valorem" shall be substituted.	3. 38-Customs, dated the 1st March, 1984.		(b) paragraph 2 shall be omitted.  In the Table annexed to the said notification, Sl. Nos. 7, 8 and 9 and the entries relating thereto shall be omitted.
2. 197-Customs, dated the 1st July, 1983.		In the said notification,— (a) For the figures and words "100 per cent ad valorem", the figures and words "50 per cent ad valorem" shall be substituted; and	4. 39-Customs, dated the 1st March, 1984.		In the Table annexed to the said notification, against Sl. No. 1 in Column (3), for the figures and words "55 per cent ad valorem", the word "Nil" shall be substituted.

[F.No. S-31/84-TRU (Customs)]  
C. VARADARAJAN, Under Secy.

